

# **MANGLAM GLOBAL CORPORATIONS LIMITED**

**(Formerly known as KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED)**

*Registered Office: Mangalwara Bazaar, Next to Agrawal Readymade Stores, Piparia, Hoshangabad-461775, Madhya Pradesh, India*

**CIN- L10613MP1979PLC074323**

*Mobile No.: +91-9340315471 E-mail: ksh.inv.ltd@gmail.com*

*Website: <https://manglamglobal.in>*

To,  
The General Manager,  
Department of Corporate Services,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Date: 19th August, 2025

**Sub: Newspaper Advertisement for 46th Annual General Meeting of the Company under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Ref. -: Scrip Code - 503626**

---

Dear Sir,

In accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, we enclose herewith the copies of newspaper advertisement published for 46th Annual General Meeting of the company in the following newspapers:

1. Business Standard (English) on 19th August, 2025.
2. Business Standard (Hindi) on 19th August, 2025.

The above information is also available on the website of the Company at <https://manglamglobal.in>  
You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you,  
Yours faithfully,

**For Manglam Global Corporations Limited**  
**(Formerly known as Kshitij Investments Limited)**

**NALINI**  
Digitally signed  
by NALINI  
KANKANI  
**KANKANI**  
Date: 2025.08.19  
13:33:46 +05'30'

**CS Nalini Kankani**  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership No: A55497  
Date: 19th August, 2025

**The Solapur District Central Co-Op Bank Ltd.**  
Solapur 207/8/9 Gold Finch path Solapur

**Tender Notice**

Sealed Tenders are hereby invited in a two-bid format for following as specified in the tender documents.

Supply and Installation of Desktop Fake Note Detection-cum-Note Sorting Machines (1+1 Pocket) with Buy-back of Existing Machines - As per RBI Norms (Make only Glory, Grex & GSD)

(Tender Cost Rs. 10,000/- & EMD Rs. 1 Lacs)

Tender fees & EMD will be accepted online through RTGS/NEFT.

**Sale of tender document :** 19/08/2025 to 28/08/2025

**Submission of tenders :** 30/08/2025 up to 05 PM only (Only Hardcopy)

More details please visit the bank web site at <http://www.solapurdcob.com>

In case of any queries kindly contact on Tel No: 9881482781  
email : development@solapurdcob.com

**Date: 18/08/2025**

Sd/-  
Rajendra Shinde  
Chief Executive Officer

**SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.**  
Registered Office: SRI, Saloon Aurnam, Jasola District Centre, New Delhi - 110025  
CIN : U65900DL2020PLC036027

**AUCTION NOTICE**

The following borrowers of Shivalik Small Finance Bank Ltd. are hereby informed that Gold Loan's availed by them from the Bank have not been adjusted by them despite various demands and notices including individual notices issued by the Bank. All borrowers are hereby informed that it has been decided to auction the Gold ornaments kept as security with the Bank and accordingly has been fixed at 11:00 am in the branch premises from where the loan was availed. All, including the borrowers, account holders and public at large can participate in this auction on as per the terms and conditions of auction.

**Auction date is 28-08-2025 @ 11:00 am.**

S. NO	Branch	Account No.	Act Holder name
1	INDORE	101042521077	DHARMENDRA YADAV
2	INDORE	101042521163	DHARMENDRA YADAV
3	INDORE	101042521069	KULB CHOUHAN
4	INDORE	101042521070	KULB CHOUHAN
5	INDORE	101042521073	SHUBHAM ATHAWALE
6	INDORE	101042520631	PANKAJ HANSAPURIA
7	INDORE	101042521024	PANKAJ JOSHI
8	INDORE	101042520724	AMRITRA RAI
9	INDORE	101042521007	PRIYA MISHRA
10	INDORE	101042521057	RAHUL

The Bank reserves the right to delete any account from the auction or cancel the auction without any prior notice.

Authorized Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd

**Equitas Small Finance Bank Ltd**  
(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)  
Registered Office: No.703, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002.

**POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)**

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice calling upon the below mentioned Borrowers to repay the total outstanding amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice. Since the below mentioned Borrowers having failed to repay the below stated amount within the stipulated time, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general that, the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 4 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. The Borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the schedule mentioned properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited and further interest and other charges thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (5) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr No	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset(Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Possession taken Date
1	Branch: Vidisha, L. No: Sevidsa0377599 Borrower: Mr. Ram Babu Vishwakarma Co - Borrower: 1. Mrs. Kamala Bai 2. Mr. Mahang Singh Vishwakarma 3. Mr. Prem Narayan Vishwakarma 4. Mrs. Vinita Bai	All That Piece And Parcel Of Plot, part Of Survey No. 95/21, total Area 1000 Sq. Ft. situated At Village Behlot, Ph. No. 42, Jhansi And Distt- Vidisha (m.p.) North By: Land Of Seller south By: Plot Of Maina, east By: Land Of Seller, west By: Lane 20 Feet	27.05.2025 & Rs. 6,65,534/-	14/08/2025

**Date: 19-08-2025, Place: Madhya Pradesh Sd/- Authorized Officer - Equitas Small Finance Bank Ltd**

**NIDO HOME FINANCE LIMITED**  
formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited

Registered Office Situated At Tower 3, 5th Floor, Wing B, Kohnoor City Mall, Kohnoor City, Kird Road, Kurla (W), Mumbai - 400070. Regional office at: Office No. 407-410, 4th Floor, Kakade Bizz Icon, CTS No. 287B, Ganeswale Road, Bhandurde, Shivaj Nagar, Pune, Maharashtra 411016.

**POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002**

Whereas the Undersigned being the Authorized Officer of Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (under 2 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice to the Borrowers as detailed hereunder, calling upon the respective Borrowers to repay the amount mentioned in the said notices with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the receipt of the same. The said Borrowers/Co borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Co borrowers and the public in general that the undersigned has taken symbolic/constructive possession of the property described herein in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act and Rule 4 of the said Rules in the date mentioned along with the Borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Nido Home Finance Limited. For the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respective dates. Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of Possession is given as under:

**1. Name and Address of the Borrower, Co Borrower/Guarantor Loan Account No. And Loan Amount:**  
FOZIA KHAN (BORROWER) & FARHAN KHAN (CO-BORROWER) Res Address: House No. 18, Maturana, Road, Vtc, Indore Nagar, Indore 452007. Also At: House No.703, Daulatganj Gali No.3, Indore (M.P.)-452007.  
Lan. No.: L180957ML20000531732 Loan Agreement Date: 30/11/2022  
Loan Amount: Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakh Only) Demand Notice Date:- 10-06-2025  
Amount Due in Rs. 31,20,582.14/- (Rupees Thirty One Lakh Twenty Thousand Five Hundred Eighty Two And Seventy Four Paise Only) With further interest from the date of Demand Notice 19-08-2025

**Schedule of the Property:-** All The Part And Parcel Bearing Flat No. 202, Area Admeasuring 838 Sq Ft On Second Floor In The Project Known As 'Ayan Plaza' Situated At Plot No.2, Scheme No.59-II, Sector-A, Nagar Nigam Indore Baidag Colony Indore (M.P.)

**Place: Indore Date: 19.08.2025 FOR Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)**

Sd/- Authorized Officer

# Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold—featuring *Shankar Sharma, Andrew Holland, Nilesh Shah, Tamal Bandyopadhyay*, and more, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email [order@bsmail.in](mailto:order@bsmail.in)

**MANGLAM GLOBAL CORPORATIONS LIMITED**  
(Formerly known as KSHITI INVESTMENTS LIMITED)

Registered Office: Mangalwara Bazaar, Next to Agrawal Readymade Stores, Piparia, Hoshangabad-461775, Madhya Pradesh, India  
CIN-L10613MP1979PLC074323  
Mobile No.: +91-9340315471 E-mail: ksh.in.vld@gmail.com  
Website: <https://manglamglobal.in>

**NOTICE OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATES**

Notice is hereby given that 46th Annual General Meeting (AGM) of MANGLAM GLOBAL CORPORATIONS LIMITED (Formerly known as Kshiti Investments Limited) (the "Company") will be held on Thursday, 11th September, 2025 at 04:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility, in compliance of provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules thereof read with General Circulars No. 14/2020 dated April 6, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 2/2022 dated May 5, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively "MCA Circulars"). Further, Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023 and other applicable circulars issued in this regard (collectively "SEBI Circulars"), have provided relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the business as set out in the Notice of AGM.

NOTICE is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rules thereof and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including the amendments thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 5th September, 2025 to Thursday, 11th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 and Rules thereof including amendments thereunder and the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent to the Members only in electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz <https://manglamglobal.in> and on the websites of Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India including amendments thereunder, the Company is providing the facility to its members holding shares on 4th September, 2025 being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting) or by e-voting at the AGM. The Company has engaged Purva Share Registry (India) Private Limited (Purva) to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:-

1. Date of completion of sending Notice of AGM along with Annual Report: 18th August, 2025
2. The remote e-voting period commences on 8th September, 2025 9:00 AM (IST) onwards and ends on 10th September, 2025 5:00 PM (IST). The voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 PM on 10th September, 2025
3. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 15th August, 2025, will be sent an email with user-id and password. If a person is already registered with Purva Share Registry (India) Private Limited for Remote e-voting, then existing User-Id and Password can be used for casting vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User details/Password" option available on (web link of e-voting site). A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of Purva Share Registry (India) Private Limited.
4. The members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through e-voting till the expiry of 30 minutes after the AGM is over.
5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
6. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of the Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. 4th September, 2025 shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.
7. The procedure of electronic voting and attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of AGM.
8. The manner of registration of e-mail addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company/Vtc R&T Agent/DP is available in the Notice of AGM.
9. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting System, you can write an email to [evoting@purvashare.com](mailto:evoting@purvashare.com) or contact at 022-49614132 and 022-49700138.
10. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Deepali Dhru, Compliance Officer, Purva Share Registry (India) Private Limited, Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400011 or send an email to [evoting@purvashare.com](mailto:evoting@purvashare.com) or contact at 022-49614132 and 022-49700138.

**Place: Piparia Date: 18th August, 2025**

By the Order of the Board of Directors  
For Manglam Global Corporations Limited  
(Formerly known as Kshiti Investments Limited)

Sd/-  
Cs Nalini Kankani  
Company Secretary and Compliance Officer



## Business Standard Insight Out

